

#### MINDA CORPORATION LIMITED

(Group Corporate Office)

July 24, 2024

The Officer-In-Charge (Listing)
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),

Mumbai - 400 051 Symbol: MINDACORP Head - Listing Operations, BSE Limited,

P.J. Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai – 400 001 Scrip Code: 538962

Sub: Submission of Newspaper Clippings

Ref: Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Please find enclosed herewith newspaper clippings published in English (Financial Express) and Hindi (Jansatta) on July 24, 2024 informing about the completion of dispatch of Notice on July 23, 2024 for 39th Annual General Meeting scheduled to be held on August 14, 2024.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

#### For Minda Corporation Limited

PARDEE Digitally signed by PARDEEP MANN
P MANN Date: 2024.07.24
12:14:02 +05'30'

Pardeep Mann Company Secretary Membership No A13371

**Encl: Clippings** 

Minda Corporation Limited (Group Corporate Office)

CIN: L74899DL1985PLC020401

D-6-11, Sector 59, Noida – 201301, U.P., India Tel: +91-120-4787100; Fax: +91-120-4787201

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Website: www.sparkminda.com; Email: investor@mindacorporation.com

# **FINANCIAL EXPRESS**

## Varishtha Property Developers Private Limited

Corporate Identification Number: U45208TG2015PTC101839 Registered Office: Puravankara Projects Limited, Survey No. 8, Opp.Mahindra Satyam, Sideline of Godrej Green Bldg Kondapura Hyderabad TG 500033, India Email: investors@puravankara.com Website: http://www.puravankara.com/varishtha Tel: 91-080-2559 900/4343 9999 Fax: 91-080-2559 9350

> Statement of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2024

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024	Corresponding Quarter ended 30.06.2023	Previous Year ended 31.03.2024
(300)		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(76.85)	(0.20)	(186.14)
3	Net Profit / (Loss) for the period before (ax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(76.85)	(0.20)	(186.14)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(57.51)	(0.20)	(135.47)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(57.51)	(0.20)	(135.47)
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Securities Premium a/c)	(208.38)	(15.60)	(150.87)
8	Securities Premium Account		- " a	
9	Net worth	(207.38)	(14.60)	(149.87)
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,774.63	1,121.01	2,694.47
11	Outstanding Redeemable Preference Shares			07
12	Debt Equity Ratio	(13.52)	(77.88)	(18.17)
13	Earnings per equity share of Rs.100 each (for continuing and discontinued operations)			
	1 Basic	(5.750.74)	(20:00)	(13,547,32)
	2 Diluted	(5,750.74)	(20.00)	(13,547.32)
14	Capital Redemption Reserve			
15	Debenture Redemption Reserve	8	8	194
16	Debt Service Coverage Ratio	0.06	(0.01)	0.09
17	Interest Service Coverage Ratio	0.06	(0.01)	0.09

#### Notes:

Place: Bengaluru, India

Date: July 23, 2024

Auction

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterty Financial Results are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.puravankara.com/varishtha/)
- 2. For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures. are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.puravankara.com/vanshtha/)
- 3. There is no impact on not profitloss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies for the quarter

For and on behalf of the Board of Directors of Varishtha Property Developers Private Limited

(Rs. Lakhs)

Name: D S Patil Designation: Director DIN: 01599400

The Jammu & Kashmir Bank Limited



mentioned below:

VIPUL KAUSHIK

DIN: 02596908

Date: 24/07/2024

Director

Sd/-

For and on behalf of the Applicant

BLUEVALUE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

## SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

#### (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue,

**Description of Immovable Property** 

Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. **DEMAND NOTICE** 

Place: 686A, CHIRAG DELHI DELHI SOUTH DELHI DELHI 110017

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013

and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of BLUEVALUE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

[CIN: U74140DL2012PTC245850] having its registered office at

686A, CHIRAG DELHI DELHI SOUTH DELHI DELHI 110017.

**PUBLIC NOTICE** 

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to

make application to the Central Government under section 13 of the

Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum

of Association of the Company in terms of the special resolution passed at

the Extra ordinary general meeting held on 05th August 2022 to enable the

company to change its Registered Office from "686A, CHIRAG DELHI DELHI

SOUTH DELHI DELHI 110017" to "7S, PARSAVNATH ESTATE, OMEGA

SECTOR-1, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules")

The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG India Credit) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Sec. 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

**Demand Notice Date** 

	Legal Heir(s).	Amount	Mortgaged				
1	. APNA DHABA.	19 <sup>th</sup> July, 2024	OWNER OF THE PROPERTY – SH. RAJAT BHOLA S/o SH. MOTI LAL BHOLA				
2	. USHA RANI.	Rs. 47,95,170.56/-	PROPERTY No1, ALL THAT PROPERTY				
3	. RAJAT BHOLA.	[Rupees Forty Seven	PIECE AND PARCEL OF ENTIRE FIRST				
13	. KAJAI BHULA.	Lakhs Ninety Five	FLOOR WITH ROOF / TERRACE RIGHTS OF				
Н		Thousand One Hundred					
Н		Seventy and Paise Fifty	NO. BE-266 AREA MEASURING 40 SQ.				
Н		Six Only]	YDS. OUT OF KHASRA NO. 1907 SITUATED				
ш		As on 16 <sup>th</sup> July, 2024	IN VILLAGE TIHAR AND COLONY KNOWN				
Н		AS 011 10 July, 2024	AS BE- BLOCK HARI NAGAR NEW DELHI. &				
ш			PROPERTY No2, ALL THAT PROPERTY				
Н			PIECE AND PARCEL OF ENTIRE GROUND				
L			FLOOR WITHOUT ROOF / TERRACE RIGHTS				
Н			OF FREE HOLD BUILT UP PROPERTY				
Н			BEARING NO. BE-266 AREA MEASURING				
Н			40 SQ. YDS. OUT OF KHASRA NO. 1907				
Н			SITUATED IN VILLAGE TIHAR AND COLONY				
L			KNOWN AS BE- BLOCK HARI NAGAR NEW				
			DELHI. BOUNDED AS UNDER: - EAST:				
			PROPERTY NO. BE-267, WEST: PORTION				
			OF SAID PROPERTY NO. BE-266, SOUTH: GALI 15 FT. WIDE, NORTH: PORTION OF				
			SAID PROPERTY NO. BE-266.				
L							
Th	The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand						

amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time

SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG

The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

**Authorized Officer SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED** Place: New Delhi Date: 24.07.2024 (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

# IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT Zonal Office (Delhi) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (T) 0124-4715800 Email: iapmd.del@jkbmail.com

a. Sh. Santokh Singh Chawla S/O Sh. Sewa Singh

**E-Auction Notice** (For sale of immovable property/ies under the SARFAESI Act, 2002) "Appendix, IV-A, Refer Proviso to Rule 8(6)"

Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers and guarantors in particular that the below mentioned property mortgaged to secured creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd), the possession of which has been taken by the Authorised officer of the Secured Creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd) under Section 13(4) of the SARFAESI Act, will be sold through E-auction on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis on below mentioned dates, for recovery of amount as mentioned below due to the secured creditor from concerned borrower(s), mortgagor(s) and guarantors. The Reserve Price is mentioned below and earnest money to be deposited is mentioned respectively

M/S Polo Amusement Park Ltd. C/O Fun 'N' Food M/S Polo Amusement Park Ltd. C/O Fun 'N' Food Name & Address of Borrower/Guarantors Village, old Delhi, Gurugram Road, Kapashera, New Delhi Village, old Delhi, Gurugram Road, Kapashera, New Delhi Through its Directors:- 1) Sh. Balwant Singh Chawla & Through its Directors:-2) Sh. Santokh Singh Chawla. a. Sh. Balwant Singh Chawla S/O Sh. Sewa Singh, R/O 7th floor, Block E, HIG Apartment No- 701 & 702

Kapashera, New Delhi, Gurugram Haryana. Guarantor)

R/O Fun 'N' Food Village, old Delhi, Gurugram Road, Surya Vihar, Dundahera, Gurugram Harvana (Borrower Director cum Mortgagor cum personal Guarantor). (Borrower/Director cum Mortgagors cum personal b. Sh. Balwant Singh Chawla S/O Sh. Sewa Singh, R/O Fun 'N' Food Village, old Delhi, Gurugram Road, b. Sh. Santokh Singh Chawla S/O Sh. Sewa Singh, Kapashera, New Delhi, Gurugram Haryana. R/O, 7th floor, Block E, HIG Apartment No- 701 & 702, (Borrower/Director cum personal Guarantor).

Surva Vihar, Dundahera, Gurugram Haryana, (Borrower/Director cum Mortgagor cum personal

**Details of Security** Equitable Mortgage Of All That Part And Parcel Of The Equitable Mortgage Of All That Part And Parcel Of The Charged covered under Property Being Apartment No. 701, On 7th Floor, In Multi Property Being Apartment No. 702, On 7th Floor, In Multi Storied Building No. E. Having Covered Area Of 1640 Sq. Storied Building No E., Having Covered Area Of 1640 Sq. Ft, In Residential Colony Or Group Housing Known As Ft, In Residential Colony Or Group Housing Known As "Surva Vihar" At Dundahera, District Gurgaon, Harvana, "Surva Vihar" At Dundahera, District Gurgaon, Harvana In The Name Of M/S Polo Amusement Park Ltd. In The Name Of Mr. Santokh Singh Chawla. Rs. 120.00 lakh Rs. 120.00 lakh Reserve price **EMD** Amount Rs. 12.00 lakh Rs. 12.00 lakh **Bid Increment** Rs. 2.00 Lakh Rs. 2.00 Lakh

**Outstanding Dues** Rs. 321.16 Lakhs as on 30.06.2024 Rs. 321.16 Lakhs as on 30.06.2024 Randhir Kotwal 9810293946 Randhir Kotwal 9810293946 Name & Number of Contact Person & Branch | Branch: J&K Bank, Vasant Vihar, Delhi Branch: J&K Bank, Vasant Vihar, Delhi. **09.08.2024** from 10.00 AM to 4.00 PM Date & time of E-auction **09.08.2024** from 10.00 AM to 4.00 PM THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED **Earnest Money Deposit** (EMD) & Other Branch Office: Vasant Vihar, Delhi Branch Office: Vasant Vihar, Delhi Remittance/s detail/s by IFSC CODE: JAKA0VASANT IFSC CODE: JAKA0VASANT **RTGS to Account** Account Name:-RTGS Interbank Receipts Account Name:- RTGS Interbank Receipts Number Account Number:-0369072000000001 Account Number:-0369072000000001 Terms & Conditions of E-Auction are as under:

The E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis and will be conducted online The bid document/format containing full details of the property and all the terms and conditions can be had from, and submitted on, the website "http://sarfaesi.auctiontiger.net" (contact person Ram Sharma -9978591888, Contact no. 079-68136880/68136837 Mob. +91 9265562821/18 email: support@auctiontiger.net).

To the best of knowledge and information of the Authorized officer, there are no encumbrances on the properties, except specifically disclosed herein. However, the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title or property/ies put on auction and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The Authorized Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The bidders shall satisfy themselves as to the description, condition or accuracy of the details regarding the property/ies given hereinabove. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank.

The interested bidders shall submit their offer along with EMD through website https://sarfaesi.auctiontiger.net (the user ID and password can be obtained free of cost by registering name with "http://sarfaesi.auctiontiger.net") through their login ID and Password. The EMD 10% of RESERVE PRICE shall be payable through NEFT/RTGS (EMD remittance details given above) on or before 08-08-2024 at 5.00 PM. Please note that Cheques/Demand Drafts shall not be accepted as EMD amount.

. The sale shall be subject to rules/conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any

or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction without assigning any reason thereof. i. The other terms and conditions of the e-Auction are available on the website https://www.auctiontiger.net

Date: 22.07.2024. Place: New Delhi

S/d- Authorised Officer, Jammu & Kashmir Bank Ltd Registered Office: Corporate Headquarters M.A Road Srinagar-190001, J&K, India

CIN: L65110JK1938SGC000048; T:+91(0)194 2481 930-35; F: +91(0)194 248 1928; E: info@jkbmail.com W: www.ikbank.com



# **SRF LIMITED**

Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091

(Rs. in Crores)

## STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

		STANDALONE			CONSOLIDATED		
SI. No.	Particulars	QUARTER	RENDED	YEAR ENDED	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30-Jun-24	30-Jun-23	31-Mar-24	30-Jun-24	30-Jun-23	31-Mar-24
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2736.30	2773.72	10786.67	3464.12	3338.38	13138.52
2	Profit for the period before tax	336.30	491.07	1717.88	343.98	485.77	1692.22
3	Net Profit for the period after tax	249.94	365.40	1374.03	252,22	359.29	1335.71
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	285.47	436.39	1465.04	295.06	369.48	1356.84
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	10503.86	9394.62	10216.27	11478.90	10401.24	11181.58
7	Net Worth	10800.28	9691.04	10512.69	11775.32	10697.66	11478.00
8	Security Premium Account	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56
9	Debt Equity Ratio	0.34	0.31	0.35	0.43	0.44	0.44
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	(a) Basic :	8.43	12.33	46.35	8.51	12.12	45.06
	(b) Diluted :	8.43	12.33	46.35	8.51	12.12	45.06
11	Capital Redemption Reserve	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48
12	Debt Service Coverage Ratio	2.07	3.02	3.34	1.82	2.64	2.71
13	Interest Service Coverage Ratio	5.80	7.90	7.35	5.28	6.63	6.11

## NOTE:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) i.e National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and can be accessed on the URL www.nseindia.com and www.bseindia.com. For and on behalf of the Board

Place: Gurugram Date: July 23, 2024

**Ashish Bharat Ram** Chairman and Managing Director

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

financialexp.epapr.in



9810495510

ROHILLA, DELHI

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED **Corporate Office:** Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

### **POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8 (1)**

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in

general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance

Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale. SL NAME AND ADDRESS OF APPLICANT ON SI OAN ACCOUNT NUMBER OF SION **DETAILS OF PROPERTY POSSESSED** 

	& LOAN ACCOONT NOMBER	DATE DEM	OUTSTAN	PROFERIT POSSESSED	DATE (POSSES)
[A]	[B]	[C]	[D]	(E)	[F]
1.	Loan Account Nos. X0HEELD00001785259) 1. BIJENDRA @ BIJENDER S/O SHRI BABU LAL (APPLICANT) 2. SAVITA W/O SHRI BIJENDRA @BIJENDER KUMAR (CO_APPLICANT)	15-03-2024	Rs. 0,61,05 n 07-03-	ENTIRE SECOND FLOOR (WITHOUT TERRACE/ROOF RIGHTS) ALONGWITH FRONT SIDE ONE CAR PARKING SPACE IN THE STILT PARKING PART OF BUILT UP PROPERTY BEARING MUNICIPAL NO. 9784, SITUATED AT AHATA THAKUR DASS, SARAI ROHILLA, DELHI MEASURING 75.6 SQ.YDS COMMON STAIR AND	23-JULY- SYMBOL
		) GH ITS ENDRA	A @BIJE	PASSAGE FROM GROUND FLOOR TO SECOND FLOOR, ALONGWITH PROPORTIONATE UNDIVIDED SHARE.  NDER KUMAR) (CO_APPLICANT) J-82, GALI AGH, DELHI - 110005, MOBILE NO-9810495510	5

ALL RESIDING ALSO AT: J- 15, F/F, PUNJABI BASTI, ANAND PARVAT, DELHI - 110005, MOBILE NO-

Date: 24/07/2024 **Authorised Officer:** Place: Delhi+NCR **Cholamandalam Investment And Finance Company Limited** 

ALL RESIDING ALSO AT: MUNICIPAL PROPERTY NO.9784, SECOND FLOOR, AHATA THAKUR DASS, SARAI

SPARK MINDA

# **Minda Corporation Limited**

CIN: L74899DL1985PLC020401

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Noida – 201301, Uttar Pradesh **Telephone No.**: +91-0120 - 4442500

Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

#### NOTICE OF 39<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION **NOTICE** is hereby given that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on

Wednesday, August 14, 2024 at 10:00 a.m.(IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 read with General Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated May 05, 2020, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular NO. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and all other relevant circulars issued from time to time, without physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the 39<sup>th</sup> AGM Notice circulated for convening the AGM.

The Company has sent Notice of the AGM and Annual Report containing Financial Statements for the year ended March 31, 2024 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance and Business Responsibility through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) ("Depository"). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website at www.sparkminda.com at the link https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1619pdctfile Noticeof39thAGMtobeheldonAugust14,2024.pdf and https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1618pdctfile\_AnnualReports2023-24.pdf respectively and the website of Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated May 22, 2024. The Company has availed the remote e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Biswajit Ghosh (FCS-8750, CP No.-8239), Partner failing him Mr. Pramod SM (FCS-7834, CP No-13784), Partner (BMP & Co. LLP, Company Secretaries) as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member/list of beneficial owners received from NSDL & CDSL as on Friday, July 12, 2024. The remote e-voting period commences on Sunday, August 11, 2024 (9:00 am IST) and end on Tuesday, August 13, 2024 (5:00 pm IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by them as on the cut-off date which is Wednesday, August 07, 2024. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 07, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual

A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM for information purposes only.

Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not casted their votes on the Resolutions through e-voting are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast vote through remote e-voting system during the AGM.

The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice has been sent through electronically by the Company, and holds shares as on cut-off date which is Wednesday, August 07, 2024 may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL or Company's RTA. However, if a member is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for voting. Members, who hold shares in physical form who have not registered their email address with the Company/

Depository can obtain Notice of 39<sup>th</sup> AGM. Annual Report and/or login details for joining the 39<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to investor@mindacorporation.com

a) a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;

b) self-attested scanned copy of the PAN Card; and c) self-attested scanned copy of any document (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Identity Card,

Passport, AADHAR Card) in support of the address of the Member as registered with the Company. **Members holding shares in demat form** are requested to update their email address/Electronic Bank Mandate with

their Depository. The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting at the 39<sup>th</sup> AGM, first download the votes cast at the AGM, thereafter unblock the votes casted through remote e-voting and shall make a Consolidated Scrutinizer's Report

of the votes casted in favour or against, if any, and to submit the same to the Chairman of the AGM or a person authorized by him within 2 (two) working days or 3 (three) days, whichever is earlier from the conclusion of the AGM. The Results shall be declared forthwith after the submission of Consolidated Scrutinizer's Report either by the Chairman of the Company or by any person authorized by him in writing.

The detailed procedure for obtaining User id & Password is provided in the notice of AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting

user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email id – evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 022 24997000, +91 022 48867000, who will also address the grievances connected with voting by electronic means.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, August 08, 2024 to Wednesday, August 14, 2024 (both days inclusive) for the said AGM and for payment of Dividend, if approved at the ensuing AGM.

The dividend on Equity Shares if declared at the meeting, will be credited/ dispatched on or before Thursday. September 12, 2024 to those members whose name shall appear on the Company's Register of Members on Wednesday, August 07, 2024. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rate. For more details, please refer to the "Communication on TDS on dividend distribution" attached to the notice of 39<sup>th</sup> AGM.

**Minda Corporation Limited** 

Pardeep Mann **Company Secretary** M.No. A-13371

Place: Delhi Date: 24.07.2024







(₹ in lakh)

स्थान : दिस्सी, तिथि : 24 जुलाई 2024

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट – IV ए) (नियम 8(6)) आईआईएफएल होम फाहनैंस जिमिटेड (पूर्वत: इंजिया इन्फोलाइन शाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्योरट कार्यालय : स्नॉटनंबर ८६, उद्यो विहार, फंज-4, गुरूढाम-122015 (हरियाणा) और साक्षा कार्यालय "1, शेक्सपियर सत्तनी, प्र्यूसी मार्केट, कोलकाता - 700071 " /30/30ई, ऊपरी तल, शिवाजी कर्ग, नई दिल्ल - 190015 " के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्त्रियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे अधिनियम कहा गर हैं) के तहरा। जबकि आईआईएफएल- एयएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नानिखित ऋण खातों / प्रेंस्पेक्टर नबसे में अधिनियम की धास 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति / सम्पत्तिपाँ का कथ्या उनको आईआईएफएल- एचएकएल की बकाया राशि की बसूली के लिए "जैसी हैजहा है एवं जैसी है जो है जापार" पर बेचने के अधिकार सहित प्रापा कर निया था। अशोहस्तासरी द्वारा कर बिकी वेबसाइट :www.iiflonchome.com, पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्न के मध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओ) /	मांग सूचना शिव्य और राशि	अधन	चन्वति / प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	मौतिक करने की तिथि	सुरक्रित मृत्य	
सह- कर्जदार(ओ)/	[2007] 2003		NEW YORK OF STREET, NEW YO	14774116191161517W	स. इ.स. 2000 / - (स्पर्य छह	
गारंटर(ओ)			मनत भाग, पर्लंट संख्या ६१, द्वितीय तल, लिंग	20-प्रागवरी -2023	लाख अहासी तजार मात्र)	
1.ची. धवण केंजरीवाल 2. श्रीमती मीति	रू.10,44,208/- (दस लाख चीवालील हजार दो भी जी संदर्भ मान)	पसेट्स संबदर	35, पॉकंट-5, ब्लॉक-बी14, रोहिगी, [निर्मित क्षेत्रफल 355 वर्ग फीट तथा कारपेट	विगांक 04-जुलाई -2024 तक कुल बकाया	धरोहर राशि जन्म (ईएसडी) क.88,800 / (रगाये	
कंजरीवाल (प्रीस्पेक्ट नंबर 725056)	बोली वृद्धि शांति क. 20,000 /— (बील हालार स्थयं मात्र)			क. 19,50,676/- (सोलंड ल्लाज प्रवास हजार छिद्देतर रूपए खज)	अक्षाठ स्वार आव शी मात्र	
ा मिस निश् गुपत	10-अष्ट्रबर-2023	संपत्ति का का हि	स्सा और पार्शन जिलमें प्रथम तल है. बिना छत	20-अदेश2024 -	क 16,00,000/- (क्रेयल स्रोतल (तरक रूपये)	
2. मिस. कमला (प्रॉक्टोक्ट नं.	र. 19,06,690/~ (संबल यनीत जाव आठ हजार पांच	के अधिकार के	साथ विटान्ट पर पार्किंग के साथ औप नंबर 6. (पुराना श्लीट नंबर 1), खना नंबर 6/11 में	दिनांक व4-प्रुलाई -2024 तक कार बकाया		
P10169416)	सी क्रियनदे रुव्ये)	के, गांव मिर्जापुर,	पालम कॉलोनी के क्षेत्र में विकत है जिसे किजद तमिशिवण, नहें दिल्ली, मारत, 110045 के रूप	च. 23.32.376/- (चपपे तेईश	धरोहर एकि जम (ईएसडी) रु 1,60,000 / -	
	बोली वृद्धि राशि क. 25,000/- (पत्त्वीस हजार कवर्ड मात्र)	में जाना जाता है	। (मृभि क्षेत्र का माप 450 वर्ग कीट, कारपेट वर्ग फीट, मिर्नित क्षेत्र का माप 405 वर्ग कीट)	आछ बत्तीस हजार तीन सी. विहलर साल)	(एक लाख सात हजार रूपये गात)	
67	रूपरित के निरीयण की तिथि - अनस्त- 2024 1100 करे-1400 करे	- 0	ईएमबी अतिथ तिथि 09- अगस्त - 2024 2024 शए. 5 बजे तक	ई-मीलामी की 12- अगस्त - 2024 1		

पुणका की विक्रि : इंट्रमडी मुगायन केवल जीनलाइन विक्रि से करने होने । बुरावान करने के लिए अप https://www.iifloneboure.com पर आई और केवल सम्पत्तिन/इतिशृत वास्ति के लिए उपलब्ध लिक के प्राचम से पुणवान करें। जीट : इन सम्पत्ति के लिए एक अनन कुनाया जिला है। अग पुणितिकत करें कि आप उस अम्पतिन/प्रतिशृत करित का जिला उपयोग कर रहे हैं, जिलाको अग सार्वजनिक गीरासी के बोरी के बाद, जायको भूगतान जारदीचीएस/ पर्माएकटी के मध्यम से करना होगा। जाता विकरण निम्मानुसार है . हा) जाते हा जाम : अर्जुजाईएकएस होम प्राप्तिक विभिन्नेत हा) बैंक का गाँम : स्टैसर्व पार्टर्स विकर निर्मित । प्राप्ता सभा : 2002वर प्रतिनेश सभा द्वारा अपूर्णित । प्राप्तिप्राप्तानीकोड - एस्पीनीपरस्थाप्रदेशा श्र) वैस पता : स्टैंबर्ड पार्टर्ड वेस द्वा एप.वी. गोड, कोर्ट स्वयं 40001.

नियम और वर्ते :--ई-नीलमी में भाग तमें के लिए इप्युक्त बोलीदाताओं को अपना विदरण लेगा प्रदाश https://www.milenchome.com के पाल पर्यपा अधिम में पर्योक्त करवाना होगा तथा लीगहून कारा, लीगहून आई दी और पासवर्ठ मुनित करना होगा। इप्युक्त बोलीदाताओं को अपना निविद्धा पार्च" ईएमडी के भुगतान विदरण, केंग्रहेंसी तथा वैनकार्ट की प्रति से साथ उपनि वर्षित शाखा कार्यातव में जमा/प्रविद

बोलीदारा अपनी जीवन बालम' बोलीपुद्धि राजि' में वर्षित सांति के गुणानी में बदा सकते हैं। नीलामी समाज संने से 5 मिनट पहले कोई बिद्ध जाने पर सामाजि का समय स्वय 5 मिनट आगे बद्ध

राकल बोजीयात को बोजीयाति की 25 प्रतिकार साथि (बंदमधी समायोजन के बाव) एउने हाता बोजीयुल्य रुपीकार करने के 24 गाँउ के मीलर और बोजी यात्रि की संग 75 प्रतिकार साथि प्रतिकृत लेनाए हारा विक्री की पृष्टि भी तिक्षि से 15 दिन के मीलर जमा करनी होगी।तामी जम्म और मुनलान निर्धारित विधि से करने होने। व्यवेदार को सम्मति के साथ संबंधित उपकर, लागून्द्राम्य कपूरी, चीस तथा अन्य कल्ली बकाया अवक जन्य बकरवा जैसे कि मुन्तिपरतकर विजासी प्रचार पूर्वि तथा अन्य समी अनुसनी लागते. प्रच

समी करो तथा पानकते सहित वहन करने होंगे। बोरीकालाओं बोर्ड-नीलामी विक्री प्रक्रियाओं में भाग रेले के लिए जगनी बोरी जम्म करने से महले नीलामी विक्री के किन्द्रत नियमों एवं शती तथा आवेदन प्रथम के लिए वेबसाइट https://www.iiflunehome.com বাধা https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction ইফার বা নানার ঐ নারে ই।

वेस्तृत विवरण सरायता प्रक्रिया तथा ई-मीरामी के संबंध में ऑनस्ताइन प्रशिक्षण के दिए संसर्वित बोसीदाता सेवायदाता वी ई-मेर आईवी : carrigitiflosehome.com सर्वेट हेट्यसाइनस्वर किसी सम्पत्ति। विवस्य, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिंड इत्यदि के संबंध मैपुरलाध के लिए। आईआईएकरल एकएकपुत टील फ्रीनंबर 1800, 2012 400 घर संसवार से शुक्रवार के बीच 08,30 बजे

से 18.00 मने तक कीत करें अध्या ई-मेल : बंतम/ प्यस्थियमीवटमप्ययन को मेल लिखें। एवझारा वपरोक्त करोडानों को सुकत यी जाती है कि मीटिक कवत लेते तनब प्रीतानुत जारित में रहीं। परेतु वस्तुप 7 दिन के मीटर डटा ते. जनवात जाईकाईएकएल एक्फाएल परितेपतियों के उन्हींन सम्बन्धि की किसी सति के लिए जिम्मेदार नहीं होती।

एतहास करोदारों को आने शुक्ता दी कारी है कि उपसेवट काबुए प्रान्त कर ने में बूक की रिवर्ति में उनको निधि सामनधार से बेबा जाएगा। संस्त्र बोलीदारा / नीजानी क्षरीकार द्वारा किसी में नरण में निवारित तरफ के बीतर पुगतान में चुक की रिवति ने विकी रदद कर 🖒 जाएंगी तथा पढ़ते जना की जा चुकी सांत्रि (ईएमडी रहित) जब एओं का विना कोई कारण बताए लिविया/नीज़बी म्यपित/निरस्त करने वा नियम एवं वाती में संबोधन करने का अधिकार जुतकत है। निविदा/नीज़बी के संबंध में किसी मी विवाद की निवित

आईआईएमएस-एक्एमएस के एवी वा। निर्मय अतिम मान्त जाएर सरफंसी अधिनियम, 2002 से नियम 9 वप नियम (1) के तसत 15 दिनों की बिक्री सूचना कर्जवार को अधिसूचित किया जाता है कि रूपरि वर्षित राति अवतन ब्याज और अनुष्यी खर्चों के साथ निविद्य / गीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें अलकल रहने पर सम्पतित बेची / गीलाम की राएनी और बकाया राजि, यदि कोई ब्याज और लागत स्तरित यसूत की जाएनी।

SPARK MINDA

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएकएल होम काहनैस जिमिटेर

# मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC020401 पंजीकृत कार्यालयः ए–15, अशोक विहार, फेस–1, दिल्ली – 110052 कॉर्पोरेट कार्यालय : डी-6-11, सैक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश दूरभाष: 0120-4442500

39वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

## वैबसाइटः www.sparkminda.com, ई-मेलः investor@mindacorporation.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 '"अधिनियम") के लाग होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए। सर्क्युलर्स") द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020, 10/2022 और 09/2023 दिनांक 5 मई, 2020, 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 के साथ पिठत सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी सर्क्यूलर नं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 ("सेबी सर्क्यूलर") के साथ पठित और समय—समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र सेबी के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा द्वारा बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल पर जिसमें एजीएम के आमंत्रण के लिये भेजी जा रही 39वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतू वित्तीय विवरणों सहित एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की सूचना और कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक जिम्मेदारी पर रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज दी है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 कंपनी की वैबसाइट www.sparkminda.com पर क्रमशः https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1619pdctfile\_Noticeof39thAGMtobeheldonAugust14,2024.pdf तथा https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1618pdctfile\_AnnualReports2023-24.pdf लिंक पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध

यथासंशोधित अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिससे वे 22 मई, 2024 की एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदशी तरीके से संचालित करने के लिए श्री बिस्वजीत घोष (एफसीएस—8750; सी.पी. सं. 8239), उनकी अनुपस्थिति में श्री प्रमोद एसएम (एफसीएस—7834, सीपी नं. 13784), पार्टनर (बीएमपी एण्ड कं. एलएलपी, कम्पनी सैक्रेटरीज़) को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। नोटिस उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके नाम शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक एनएसडीएल और सीडीएसएल से प्राप्त सदस्य रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि रविवार, 11 अगस्त, 2024 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 (सांय 5:00 बजे भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट—ऑफ तिथि, जो बुधवार, 07 अगस्त, 2024 है, को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि यानी बुधवार, 07 अगस्त, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉंजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा के साथ—साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे तद्नुसार एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए।

वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और ई—वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था, अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया है, वे एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट—ऑफ तिथि बूधवार, 07 अगस्त, 2024 को शेयर रखता है, वह एनएसडीएल या कंपनी के आरटीए को अनुरोध भेजकर रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे 39वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ई—वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण investor@mindacorporation.com पर ई—मेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ भेजकर प्राप्त कर सकते हैं

(क) एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र पर अपना नाम, फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करें

(ख) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति; तथा

(ग) कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैंस, बैंक विवरण, चुनाव पहचान प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड) की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति ।

**डीमैट रूप में शेयर रखने वाले** सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता / इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अपने

डिपॉजिटरी के साथ अपडेट करें।

39वीं एजीएम में मतदान के समापन के तुरंत बाद संवीक्षक पहले एजीएम में डाले गए वोटों को डाउनलोड करेगा, उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए वोटों की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे एजीएम के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष एजीएम के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों या 3 (तीन) दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तूत करेगा।

कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद परिणाम तत्काल घोषित किए जाएंगे।

युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) शेयर होल्डर्स के लिए और ई—वोटिंग यूजर मैन्यूअल देख सकते है या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथीं मंज़िल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी— evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर पर :- +91, 022 24997000, +91 022 48867000 से संपर्क करें, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम, की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के नियम 42 के अनुसार, उक्त एजीएम के लिए और यदि आगामी एजीएम में अनुमोदित हो तो लागांश के भुगतान के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर कंपनी की ट्रांसफर बुक गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 से बुधवार, 14 अगस्त, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

बैठक में घोषित होने पर इक्विटी शेयर पर लाभांश उन सदस्यों के पास गुरुवार, 12 सितम्बर, 2024 तक या इससे पूर्व उन सदस्यों को जमा / भेज दिये जायेंगे जिनके नाम बुधवार 07 अगस्त, 2024 तक सदस्यों के कम्पनी के रजिस्टर में अंकित होंगे। लाभांश का भूगतान लागू दर पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के आधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 39वीं एजीएम की सूचना के साथ संलग्न "लाभांश वितरण पर टीडीएस पर कॉम्युनिकेशन" देखें।

> मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हस्ता / – प्रदीप मान

स्थान : दिल्ली कम्पनी सचिव दिनांक : 24.07.2024 सदस्यता सं. ए–13371



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.: +91-11-23357940; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)
1	Total income from operations	11,481.57	44,611.47	10,271.46
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	4,720.68	19,986.02	4,974.06
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	4,720.68	19,986.02	4,974.06
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	3,588.87	15,224.19	4,062.78
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,579.59	15,075.20	4,049.06
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	•	96,683.79	8
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic (₹):	36.92	157.07	41.90
	Diluted (₹):	36.90	156.99	41.90

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(₹ in lakh) Quarter Year ended Quarter ended June March ended June Particulars No. 30, 2024 31, 2024 30, 2023 (Audited) (Unaudited) (Unaudited) 6,320.43 25,124.01 5,816.40 Total income from operations Net profit / (loss) for the period 3,131.16 14,684.04 2,992.46 (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) Net profit / (loss) for the period before tax 3,131.16 14,684.04 2,992.46 (after exceptional and/ or extraordinary items) Net profit / (loss) for the period after tax 2,471.51 12,315.76 2,604.32 (after exceptional and/ or extraordinary items) Total comprehensive income for the period 2,483.37 12,266.87 2,596.49 [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)] Equity share capital 965.12 965.12 965.12 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as 73,178.32 shown in the Audited Balance Sheet Earnings per share (of ₹ 10/- each) 25.69 128.03 27.07 Basic (₹): 127.97 27.07 Diluted (₹)

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated and Standalone Unaudited inancial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2024. The full format of the Quarterly Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon are available on the Stock Exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com and under the Investors section on the Company's

By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan

Managing Director & Group C.E.O.

Place: Gurugram Date : July 23, 2024

(DIN: 09371341)

LIBERTY

# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185

पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला – करनाल – 132114, हरियाणा कॉर्पोरेट ऑफिस: 19वा तल मैगनम म्लोवल पार्क, टावॅर-2, गोल्फ कोर्स एक्सटेशंन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम- 122011, हरियाणा दुरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222

ई-मेल : Investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com,

# पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 एवं भारतीय प्रतिभृति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के विनियम 44 तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्धारित सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 (इसके बाद सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और अन्य कोई लागू कानून, नियम और विनियम, यदि कोई हो, लिबर्टी शूज लिमिटेड (कंपनी) ने मगंलवार 23 जुलाई, 2024 को अपने सदस्य जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी अथवा कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज करा रखी है, केवल ई-मेल के माध्यम से, रिजस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के द्वारा पोस्टल बैलेट की सूचना दिनांक 19 जुलाई, 2024 तथा व्याख्यात्मक विवरण तथा पासवर्द्ध/लोगीन आईडी, उपरोक्त पोस्टल बैलेट की सूचना में निर्धारित आम तथा विशेष संकल्पों के संम्बंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अनुमोदन के लिए, भेज दी गई हैं। अधिनियम की घारा 102(1) के तहत प्रस्तावों से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण, पोस्टल बैलेट सूचना का हिस्सा है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने जे वी एस एण्ड एसोसिएटस (सी. पी. नम्बर 10196) को उपरोक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया का सही तथा निष्पक्ष रुप से संचालन करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया हैं। एमसीए परिपत्रों की औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए, इस पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई एन्वोलॉप के साथ सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे अपनी सहमति या असहमति को केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से भेज सकते हैं। इस उददेश्य के लिए, कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए लिंक ईन टाईम इंण्डिया प्रावेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर विस्तृत पद्धति/निर्देश और अभी तक अपने ई-मेल पते को रिजस्टर नहीं करने वाले सदस्यों के लिए अपने ई-मेल पते को रिजस्टर करने के निर्देश और/या अपने मत देने के निर्देश पोस्टल बैलेट सूचना में निर्दिष्ट हैं।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 24 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे (भारतीय मानक समय) से आरंभ होगी और बृहरपतिवार, 22 अगस्त, 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल लिंक ईन टाईम इंण्डिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रस्तावों पर एक बार मत देने के पश्चात सदस्य अपना मत बदल नही पाएगें।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले सदस्यो की पात्रता सुनिश्चित करने की कट ऑफ तिथि शुक्रवार 19 जुलाई, 2024 हैं। भौतिक और अभौतिक रुप से शेयर धारक सदस्य और जिनका नाम केवल कट ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। एक व्यक्ति जो कट आँफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी समझे।

व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट सूचना कंपनी की वेबसाइट www.libertyshoes.com, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रासंफर एजेंट लिकं ईन टाईम इंण्डिया प्रावेट लिमिटेड की वेबसाईट https://instavote.linkintirne.co.in. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंग्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और बी एसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइटो पर उपलब्ध हैं।

पोस्टल बैलेट का परिणाम दिनांक शुक्रवार 23 अगस्त, 2024 तक धोषित कर दिया जाएगा। स्कृटिनाइजर रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तथा कार्रपोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाईट यानी www.libertyshoes.com और लिक ईन टाईम इंग्डिया प्रावेट लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in. पर भी उपलब्ध होगा, साथ-साथ परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंज पर भी सुचित किया जाएगा, जहा कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

किसी भी शंका/समस्या/शिकायत के मामले में, सदस्य (i) रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका या (ii) सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) देख सकते हैं। जो हेल्प सेक्शन में https://instavote. linkintime.co.in, पर उपलब्ध हैं या वह enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

> के लिए और की तरफ से लिबर्टी शुज़ लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा तिथिः मगंलवार, 23 जुलाई, 2024

सी एस मुनीष काकरा मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव सदस्य संख्या ACS6262



मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मोटिस मैं विलीय आरितायों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निमॉण तथा प्रतिभृति कित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, मणिमवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेंट तिसिटेंड का प्राधिकृत अधिकारी हूं, जिसका पंजीकृत कार्यातय द्वितीय तल, एन-2, साउथ एक्सटेशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में है. (जिसे आगे "एमबीएथएफ" कहा जाएगा), जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की अधिसूचना के द्वारा 'विलीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002' कं प्रयोजनों के लिए वितीय संख्यान के रूप में माने जाने के लिए विधिवत प्राधिकत किया गया है. इसके द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना जारी करता हं--

 विव्यांक आहुजा, 2 हिमदी डावर, दोनों निवासी हैं – बी-3/106 तीसरी मंजिल, जशोक विहार फेज-2. नई दिल्ली-110052। यहां भी:- ओम एटरप्राइजेज, 4289, पहली मंजिल, राविधा मार्केट, गली शतारा, जीवी रोड को पीछे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास-110006। यहाँ मी:- संपत्ति संख्या 1001 (बाई ओर की इमारत), गडली मंजिल, मुखर्जी नगर, किंग्सवे कैंप, दिल्ली-110009।

ऋण खाता संख्या/दिशांकः HL0000000002535/30.09.2020 और 1.P00000000000308/24.12.2023, प्राप्त ऋण राशिः रु. 2700000/- और रु. 400000/-

13(2) नोटिस की तिबि : 01.07.2024 एनपीए की तिथि : 10.96.2024

मांग तिष्य और राशि धारा 13(2) अधिनियम के अनुसार नोटिसः रु. 3232688 / -(रुपये वलीस लाख बतीस हजार छह सी अद्वासी मात्र) और रू. 461485,73/-(रुपये चार लाख इकसठ हजार चार सी पचासी और पैसे तिहतर मात्र) 19 जून 2024 तक।

बंदक संपत्तियाः संपत्ति के सभी टुकडे और पासंल संपत्ति संख्या 1001 प्रथम तल मुखर्जी नगर किंग्सदे कॅप दिल्ली, नई दिल्ली 110009।

इसके अलावा कारणों के साथ हम मानते हैं कि आप मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं. इसलिए मांग नोटिस क यह प्रकाशन। आपको इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तारीखा से 60 दिनों की अवधि के भीतर मधिनवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चपरोक्त राशि के साध-साथ आगे व्याज, लागत आकरिंगक वाय शुल्क आदि का मुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर मणिचवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्राक्यान के तहत जंगारकर्ता / ओं की इन सुरक्षित संपंतियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ आवश्यक कर्रवाई करेगा। इसके अलावा आपको उक्त अधिनिवन की पारा 13(13) के तहत बिक्री/पहें या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबधित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि आगे कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक - 24.07.2024, मणिमवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

#### प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014

के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

समवर्धना मदरसन ऑटो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U50300DL2014PTC273269) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली भारत-110044 में है, के मामले में

...आवेदक कम्पनी

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24 जून, 2024 को संक्षिप्त सूचना पर आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ रसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल ( www.mca.gov.in ) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पतेः बी-2 विंग, 2रा ाल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा करा या पंजीकत डाक से भेजें:

> कृते, समवर्धना मदरसन ऑटो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड संजय मेहता

तिथि: 23 जुलाई, 2024 स्थानः नई दिल्ली

(निर्देशक) DIN: 03215388



आरती सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड CIN: L24100MP2018PLC067037

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 57, 58, 60 से 64, 62ए, र-3/1, सेक्टर-3, सागोर गांव, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला धार - 454775, मध्य प्रदेश

कॉपोरेंट कार्यालय: यूनिट नंबर 202, प्लॉट 71, उद्योग क्षेत्र, दूसरी मंजिल, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई - 400080, महाराष्ट्र वेबसाइटः www.aarti-surfactants.com, ई-मेलः investors@aarti-surfactants.com

6वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग सूचना

एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 8 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र और इस संबंध में जारी

किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम 25 सितंबर, 2023 का 09/2023 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) है और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 के अपने परिपत्र (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए आरती सफैंक्टेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 6वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) से 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना

मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.aarti-surfactants.com/annual-report.htm और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है, और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,

2014 के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को 6ठी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने एनएसडीएल से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया है। सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है किः ई-वोटिंग अवधि रविवार, 11 अगस्त, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान,

कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 6 अगस्त, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण किए हुए हैं, वे evoting@nsdl.co.in

investors@aarti-surfactants.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो आप मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं और अपना वोट एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएवीएम

के माध्यम से एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है और या अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के

लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे 6ठी एजीएम की सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर प्रदान की गई एजीएम का लाइव वेबकास्ट देखने में सक्षम होंगे, इसके लिए उन्हें अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा और कंपनी की एजीएम के लिए ईवन का चयन करना होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा। ई-मेल पते पंजीकृत करने की प्रक्रियाः

. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपने ई-मेल पते पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर या कंपनी को investors@aarti-surfactants.com पर ई-मेल भेजकर अपने ई-मेल पते पंजीकृत करें। डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत न किए गए भौतिक रूप में शेयर या ई-मेल पते रखने वाले सदस्यों द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और

पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः 10. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया investors@aarti-surfactants.com पर ईमेल भेजकर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (स्व-सत्यापित स्कैन), आधार (स्व-सत्यापित) प्रदान करें।

11. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया investors@aarti-surfactants.com पर डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्व-सत्यापित), आधार (स्व-

12. वैकल्पिक रूप से सदस्य उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए बिंदु (10) या (11) में उल्लिखित विवरण प्रदान करके evoting@nsdl.co.in पर एक ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। किसी भी सहायता के मामले में, आप एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग में www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders AüSX e-voting user manual for shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 48867000 या 022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या अमित विशाल. सहायक उपाध्यक्ष या पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज

निदेशक मंडल के आदेश से आरती सर्फेक्टेंटस लिमिटेड के लिए

प्रियंका चौरसिया कंपनी सचिव

मुंबई/23 जुलाई, 2024

आईसीएसआई एम. नं. ए४४२५८